



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]
No. 14]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2006/माघ 4, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2006/MAGHA 4, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2006

सं. 394/104/2005-सीमा शुल्क (तस्करी रोधी).—राष्ट्रपति जी, गणतंत्र दिवस, 2006 के अवसर पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के नीचे उल्लिखित अधिकारियों में से प्रत्येक को प्रशंसा प्रमाण पत्र पुरस्कार प्रदान करते हैं :—

विशेषरूप से उत्कृष्ट सेवा रिकार्ड के लिए राष्ट्रपति का प्रशंसा प्रमाणपत्र पुरस्कार

क्रम सं. नाम पदनाम एवं अधिकारी की वर्तमान तैनाती

आयुक्त/अपर महानिदेशक:

1. श्री बी. रविचन्द्रन, अपर महानिदेशक (सतर्कता), चेन्नई

अपर आयुक्त/अपर निदेशक/संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निदेशक

2. सुश्री संगीता शर्मा, निदेशक (समीक्षा), के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड
3. श्री एम.एम.पार्थिवन, निदेशक (सीमा शुल्क), के.उ.शु. एवं सी.शु. बोर्ड
4. श्री समंजस दास अपर आयुक्त, सीस्टेट, नई दिल्ली
5. श्री डी.कुष्णन, अपर निदेशक, प्रणाली महानिदेशालय, नई दिल्ली
6. श्री संदीप कुमार, अपर आयुक्त, कन्सुलेट जनरल भारत, हाँगकाँग
7. श्री डी.के.श्री निवास, अपर निदेशक, डी आर आई, चेन्नई।

उप निदेशक/उपायुक्त/सहायक निदेशक/सहायक आयुक्त

8. श्री मदन गोपाल अत्री, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली।
9. श्री पी राधाकुष्णन, उपनिदेशक, डी जी सी ई आई, कोच्ची
10. श्री सुखजीत कुमार, सहायक निदेशक, डी जी सी ई आई, पुणे

अधीक्षक/वरिष्ठ आसूचना अधिकारी

11. श्री के.एस. रमेश, वरि. आ.अधि., डी जी सी ई आई, बंगलौर
12. श्री पी.अरुल, वरि.आसूचना अधि., डी जी सी ई आई, चेन्नई
13. श्री एस.एस बैस, वरि. आसूचना अधि. डी जी सी ई आई, रायपुर
14. श्री सुखदेव कुमार दुआ, अधीक्षक, दिल्ली-I
15. श्री सतीश चन्द्र जोशी, अधीक्षक, दिल्ली-III
16. श्री जगदीश शंकर भट्ट, अधीक्षक, गोवा
17. श्री अशोक प्रताप सिंह, अधीक्षक, मेरठ
18. श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, अधीक्षक भोपाल
19. श्री नन्द लाल, अधीक्षक, दिल्ली-I
20. श्री गौतम कुमार बसु, अधीक्षक, नोएडा
21. श्री फणी धर काकाटी, अधीक्षक, गुवाहाटी, सी.शु.प्रभाग
22. श्री एम.टी.मुरली, अधीक्षक, सतर्कता निदेशालय, नई दिल्ली
23. श्री शिवाजी राव, अधीक्षक, तिरुपति

निरीक्षक/आसूचना अधिकारी

24. श्री जयदेव सिंह, आसूचना अधिकारी, डी जी सी ई आई, इंदौर
25. श्री एन.श्रीनिवासन, आसूचना अधिकारी, डी जी सी ई आई, चेन्नई
26. श्री के. रामचन्द्रन पिल्लई, आसूचना अधिकारी, डी आर आई, चेन्नई
27. श्री सुप्रियो चक्रवर्ती, आसूचना अधिकारी, डी आर आई, कोलकाता

ड्राइवर

28. श्री प्रमोद कुमार सिंह, ड्राइवर, डी आर आई, नई दिल्ली ।

ये पुरस्कार समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.12/139/59-प्रशा. III(ख), दिनांक 5 नवम्बर, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में यथाप्रकाशित सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पुरस्कारों को प्रशासित करने वाली स्कीम के पैरा 1 क खण्ड (क) (ii) के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

ए. पी. सुधीर, सदस्य (राजस्व आसूचना एवं जाँच/सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2006

No. 394/104/2005-Cus (AS).—The President is pleased to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service, to each of the under mentioned officers of the Customs & Central Excise Department and the Enforcement Directorate on the occasion of Republic Day 2006 :-

PRESIDENTIAL AWARD OF APPRECIATION CERTIFICATE FOR SPECIALLY DISTINGUISHED RECORD OF SERVICE.

Sl.No. Name Designation & present posting of the officer.

COMMISSIONERS/ADDITIONAL DIRECTORS-GENERAL

1. Shri B. Ravichandran, Addl. Director General (Vig.), Chennai.

ADDITIONAL COMMISSIONERS/ADDITIONAL DIRECTORS / JOINT COMMISSIONERS/ JOINT DIRECTORS:

2. Ms. Sungita Sharma, Director (Review), CBEC.
3. Shri M.M. Parthiban, Director (Customs), CBEC.
4. Shri Samanjasa Das, Addl. Commissioner, CESTAT, New Delhi.
5. Shri D. Krishnan, Addl. Director, Dte. General of Systems, Delhi.
6. Shri Sandeep Kumar, Addl. Commissioner, Consulate General of India, Hong Kong.
7. Shri D.K. Srinivas, Addl. Director, DRI, Chennai.

DEPUTY DIRECTORS/DEPUTY COMMISSIONERS/ASSISTANT DIRECTORS/ASSISTANT COMMISSIONERS

8. Shri Madan Gopal Atri, Chief Enforcement Officer, Dte. of Enforcement, New Delhi.
9. Shri P. Radhakrishnan, Dy. Director, DGCEI, Kochi.
10. Shri Sukhjit Kumar, Asstt. Director, DGCEI, Pune.

SUPERINTENDENTS/SENIOR INTELLIGENCE OFFICERS

11. Shri K. S. Ramesh, SIO, DGCEI, Bangalore.
12. Shri P. Arul, SIO, DGCEI, Chennai.
13. Shri S.S Bais, SIO, DGCEI, Raipur.
14. Shri Sukhdev Kumar Dua, Supdt., Delhi-I.
15. Shri Satish Chandra Joshi, Supdt., Delhi-III.
16. Shri Jagdish Shankar Bhat, Supdt., Goa.
17. Shri Ashok Pratap Singh, Supdt., Meerut.
18. Shri Suresh Chandra Pandey, Supdt., Bhopal.

19. Shri Nand Lal, Supdt, Delhi-I
20. Shri Goutam Kumar Basu, Supdt, Noida.
21. Shri Phani Dhar Kakati, Supdt., Guwahati Customs Division.
22. Shri M.T. Murali, Supdt, Directorate of Vigilance, New Delhi.
23. Shri Shivaji Rao, Supdt, Tirupati.

INSPECTORS/INTELLIGENCE OFFICERS

24. Shri Jaidev Singh, IO, DGCEI Indore.
25. Shri N. Sreenivasan, IO, DGCEI, Chennai.
26. Shri K. Ramachandran Pillai, IO, DRI, Chennai.
27. Shri Supriyo Chakravarty, IO, DRI, Kolkatta.

DRIVER

28. Shri Pramod Kumar Singh, Driver, DRI, New Delhi.

These awards are made under clause (a) (ii) of para 1 of the scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs & Central Excise Department, Narcotics Control Bureau and Directorate of Enforcement, as published in Part I, Section I of the Gazette of India Extraordinary, Notification No.12/139/59-Ad.III(B) dated 5th November, 1962, as amended, from time to time.

A. P. SUDHIR, Member (Revenue Intelligence & Investigation/Customs)